



Fabino Life Sciences Ltd.

(An ISO 9001:2015 Certified Company)

March 05, 2024

To
BSE Limited,
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 543444

Sub: Newspaper clippings — Notice of Postal Ballot

Dear Sir/Madam,

In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper advertisements published in “The Financial Express”, all India Editions, in English language and in “Prathakiran”, Delhi addition, in Hindi language.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Fabino Life Sciences Limited



Aditya Mahavir Jain
Managing Director
Din: 09353344

Encl: As belows

Macrotech looks to raise ₹3,300 cr via QIP

RAGHAVENDRA KAMATH
Mumbai, March 4

MACROTECH DEVELOPERS WHICH operates under Lodha brand, is looking to raise ₹3,300 crore (₹398 million) through a qualified institutional placement (QIP) of shares, sources said.

The indicative issue price is ₹1,098 per share, which is at a discount of 7.34% to Monday's closing price, *Bloomberg* said quoting terms of the offer.

The proceeds of the QIP will be used to repay borrowings, for acquisition or development of land, and general corporate purposes, according to the terms.

Lodha will issue as many as 30 million shares in the QIP, the sources said.

RAISING FUNDS

■ The proceeds will be used to repay borrowings and other purposes

30 million shares to be issued in QIP, indicative issue price is ₹1,098 per share



■ Floor price of shares at **₹1,129.48** apiece

■ In 2022, Macrotech had raised ₹3,547 cr

Macrotech could not be contacted for a response.

The company has set a floor price of ₹1,129.48 apiece and may offer a discount of not more than 5% on the floor price of the issue.

In December 2022, the company had raised around

₹3,547 crore from foreign and domestic institutional investors through the year's largest QIP.

Jefferies India, Kotak Mahindra Capital Company, and BofA Securities India are the book running lead managers to the issue.

● BID TO ACCELERATE ADOPTION OF GENERATIVE AI IT firms roll out responsible AI solutions

SAMEER RANJAN BAKSHI
Bengaluru, March 4

INDIAN IT FIRMS are launching responsible AI solutions to help enterprises balance innovation with ethical considerations to maximise their return on investments. The need for responsible AI is felt when the model errs in its answers.

Infosys last week launched its responsible AI suite, a part of Infosys Topaz, an AI-first set of services, solutions and platforms using generative AI.

According to the Infosys generative AI radar, by Infosys Knowledge Institute, "enterprises worldwide are identifying data privacy, security, ethics and bias as the primary challenges in their pursuit of innovation with AI".

Phil Fersht, CEO and chief analyst, HFS Research, said, "With the challenges of responsible AI currently forcing many

enterprises to slow their progress towards achieving scaled value with AI, smart offerings such as Infosys Topaz's responsible AI suite can clear the path to help them accelerate their critical AI initiatives."

Another IT firm, Coforge, launched "Quasar responsible AI solution" last December.

"Coforge Quasar responsible AI is a comprehensive solution that tackles biases in datasets and models, identifies potential risks and compliance issues and provides tools to govern, mitigate and remediate these challenges", said the company in a statement.

Similarly, Sonata Software, launched Harmoni AI—a responsible-first AI offering for enterprise scale, leveraging the power of generative AI—last year.

The company claims that its 'responsible by design' approach ensures uncompromising



■ Infosys has launched its responsible AI suite, a part of Infosys Topaz, last week

■ In December, Coforge had launched Quasar responsible AI solution

■ Responsible AI frames the right kind of boundaries

■ The aspects of responsible AI includes transparency, accountability, accuracy

ethics, trust, privacy, security, and compliance. The IT firm is helping enterprises leverage the most relevant use cases for their specific business needs within a governed framework.

Akhilesh Tuteja, partner &

national leader, clients and markets and technology, media and telecommunications, KPMG in India, said, unlike traditional computing where the answers are always predictable (ie same inputs give same outputs), in AI

there are lot of probabilistic outcomes because it tries to predict. AI system works on probabilistic model rather than deterministic model.

"The range of probabilities can be very wild. One may not get the answer he/she is looking for. Therefore, one has to make sure that AI used for mission critical systems, uses the right kind of parameters and is going to give right answers," Tuteja said.

Responsible AI frames the right kind of boundaries. The aspects of responsible AI are—transparency, accountability, accuracy and explainability—the system can answer why it has come up with an answer, added Tuteja.

When guardrails are set, temperatures are also set. Temperature in AI parlance is a parameter that is used to control the randomness of the outputs or answers.

Samsung yet to settle claims worth ₹50 cr, say phone retailers

JATIN GROVER
New Delhi, March 4

OVER 5,000-6,000 MOBILE phone retailers, largely in Maharashtra, on Monday asked Samsung to settle their claims worth over ₹50 crore, which have been pending since last year.

The pending claims raised to Samsung by the retailers include payments of margins as well as certain schemes offered by the smartphone company for which it has asked retailers to give discounts to consumers.

The company offers 8-10% margins to retailers for selling its smartphones.

The pending payment by

Samsung pertains to the January-March quarter of last year, which in a way is affecting the financial position of retailers, they said.

"These retailers are crucial partners to the success of Samsung in the region, and their concerns must be addressed promptly," the All India Mobile Phone Retailers Association (AIMRA), said in an email to Raju Pullan, senior vice president of mobile business at Samsung India.

The retailers are planning a demonstration in front of the company office if the company fails to settle the claims, according to AIMRA executives.

Air India plans to elevate lounges, in-flight offerings

ROHIT VAID
New Delhi, March 4

TO ENHANCE PASSENGER experience, Air India is planning to establish new lounges in various airports worldwide, including San Francisco and JFK, as well as in other domestic and international markets, according to sources from the firm.

"Air India will be building its own lounges, which will then be given to a third party to run," sources said. "New lounges are expected to come up in the US and Europe. In the domestic market, Delhi, Mumbai, and Bengaluru will have premium lounges of the airline to enhance its guest experience." The airline has recently enlisted the services of Hirsch Bedner Associates (HBA), a hospitality interior design firm, to renovate the

PASSENGER COMFORT

■ Air India will be building its own lounges at various airports. Eventually, it will be given to a third party to run

■ The new lounges aim to provide an upgraded experience for first-class, business-class, eligible FFP (frequent flyer programme), and Star Alliance members



existing Air India lounges at Terminal 3 of New Delhi's IGI Airport and Terminal 4 of JFK Airport in New York. These new lounges aim to provide an upgraded experience for first-class, business-class, eligible FFP (frequent flyer programme), and Star Alliance members.

Regarding the in-flight experience, sources said that the airline is reportedly roping in experts in the field, like an internationally acclaimed wine specialist, to oversee the revamp of its beverage menu, while other experts have been roped in to add to its meal offerings.

Phonemaker targets 2 mn unit sales of Galaxy F15 in 15 months

SAMSUNG ON MONDAY said it is eyeing about 2 million units sale of its newly launched entry-level handset, Galaxy F15 5G, in the next 12-15 months.

Aditya Babbar, vice president, MX Business at Samsung India, said that outside Korea, Samsung has its

largest innovation centres in India, and is fully committed to the 'Make in India' vision. "...we included premium features like Knox security, voice focus, super amoled display, and 5G connectivity, we have focussed on keeping it price-effective," Babbar said. —PTI

Akasa Air to trim its budget for 2024-25

AKASA AIR, WHICH is all set to start international services this month, has decided to trim its budget for the next financial year as part of cost control measures, according to two sources.

When contacted, an airline spokesperson said it is always looking for prudent ways to control costs. —PTI

The carrier, which commenced commercial flights on August 7, 2022, operates more than 20 Boeing 737 Max aircraft.

The sources, on Monday, said that the airline has decided to reduce its budget for 2024-25 fiscal and the reduction could be up to 20% compared to the current financial year. —PTI

Signature Global project logs ₹3,600-cr pre-formal launch sales

FE BUREAU
New Delhi, March 4

SIGNATURE GLOBAL HAS announced pre-formal launch sales of more than ₹3,600 crore for its latest premium housing residential development project, DE LUXE-DXP, in Sector 37D in Gurugram.

Spread over 16.5 acres, the IGBC gold-rated project presents a sales potential of 2.7 million sq ft.

It offers 1,008 units in eight towers, ranging from 3BHK, 3.5BHK and 4.5BHK apartments to penthouses.

Pradeep Aggarwal, chairman and whole-time director, Signature Global, said, "With growing affluence in the middle class, a significant population segment has developed better purchasing power and higher aspirations."

"These factors have led to growing demand in the mid-housing segment, as modern-day consumers are seeking a mix of features, amenities, space, and affordability to fulfill the demands of the new age lifestyle."

"Surprisingly, non-resident Indians and big corporate employees have shown immense response, it is interesting to note that each buyer has been allotted only one unit," Aggarwal said.

These patterns indicate that market sentiment for real estate investment is poised towards growth, he said.

For the number of units available for sale, DELUXE-DXP received an oversubscribed expression of interest over 5.4 times.

Nippon India Mutual Fund
Wealth sets you free

Nippon Life India Asset Management Limited
(CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Office: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013. Tel No. +91 22 6808 7000
Fax No. +91 022 6808 7097 • mf.nipponindia.com

Record Date March 07, 2024#

NOTICE NO. 87

Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund ("NIMF") has approved the following Distribution on the face value of Rs. 10/- per unit under Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) option of the undernoted schemes of NIMF, with March 07, 2024 as the record date:

Name of the Scheme(s)	Amount of Distribution (₹ per unit)*	NAV as on March 01, 2024 (₹ per unit)
Nippon India Multi Cap Fund - IDCW Option	5.0000	61.0209
Nippon India Multi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option		84.6683
Nippon India ELSS Tax Saver Fund - IDCW Option	2.5000	35.3795
Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - IDCW Option		45.7224
Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Annual IDCW Plan Plan - IDCW Option	1.5000	21.4678
Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct - Annual IDCW Plan - IDCW Option		22.8689

*Income distribution will be done, net of tax deducted at source, as applicable.
#or the immediately following Business Day if that day is a non-business day

Pursuant to payment of dividend/IDCW, the NAV of the Scheme will fall to the extent of payout, and statutory levy, if any. The IDCW payout will be to the extent of above mentioned Distribution amount per unit or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower.

For units in demat form : IDCW will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under the IDCW Plan/Option of the Schemes as on record date.

All unit holders under the IDCW Plan/Option of the above mentioned schemes, whose names appear on the register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the IDCW.

For Nippon Life India Asset Management Limited
(Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signatory

Mumbai
March 04, 2024

Good gets better

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

FABINO LIFE SCIENCES LIMITED
Corporate Identity No (CIN): L24100HR2011PLC114093
Regd. Office: Jeevan Vihar Extension, Near Shubham Garden, Murthal Road, Sonapat-131001, Haryana, India
Tel: 919215324221 | Email: info@fabinolife.com | Website: http://www.fabinolife.com

NOTICE

NOTICE is hereby given to the Members of the ("Company") pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), Secretarial Standard- 2 on General Meeting (the "SS-2"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations") including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA"), for holding general meetings/conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, 22/2020 dated 15th June 2020, 33/2020 dated 28th September 2020, 39/2020 dated 31st December 2020 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 and dated December 28, 2022 (the "MCA Circulars") and any other applicable laws and regulations, that the following special business is proposed for consideration by the Members of the Company through Postal Ballot by voting through electronic means ("e-voting") and voting by Postal Ballot Paper:

Item No.	Description of the Resolution
1.	TO APPROVE THE CHANGE OF NAME OF THE COMPANY
2.	TO ALTER THE OBJECT CLAUSE OF MOA OF THE COMPANY
3.	TO CONSIDER AND APPROVE THE BORROWING POWERS OF THE COMPANY UNDER SECTION 180(1) (C) OF THE COMPANIES ACT, 2013
4.	TO MAKE INVESTMENTS, GIVE LOANS, GUARANTEES AND SECURITY IN EXCESS OF LIMITS SPECIFIED UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

In terms of MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice electronically on 29th February, 2024 and additionally the company has also dispatched Addendum to the Postal Ballot Notice electronically on 04th March, 2024 to the Members of the Company holding shares as on 23rd February, 2024 ("Cut-off Date"). Members whose names are recorded in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off Date will be entitled to cast their votes by e-voting. Members who have not registered their mobile numbers or e-mail id or in case of any queries kindly mail to investor@bigshareonline.com

In accordance with the guidelines, hard copy of the Postal Ballot Notice along with postal ballot forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members. The communication of the asset or dividend of the Members would take place through the voting system only.

In this regard the notice of Postal Ballot and the addendum to the notice of Postal Ballot can be downloaded from the website of the Company at <https://www.fabinolife.com/> and also on the website of NSDL (being the E-voting service provider) at www.evoting.nsdl.com. The notice is also displayed on the website of BSE Limited where shares of the company are listed.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for the purpose of providing e-voting facility/Postal Ballot to all its Members. Members are requested to note that the e-voting shall commence from Friday 01st March, 2024 (9:00 AM IST) to Friday, 30th March, 2024 (5:00 PM IST). The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.

The Board of Directors has appointed Mr. Jigarkumar Gandhi (Membership No. 7569 and Certificate of Practice No. 8108), Practising Company Secretary, as the scrutiner ("scrutinizer") for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner. The results of the e-voting will be declared latest by Tuesday, 02nd April, 2024 and will also be uploaded on the Company's website and BSE Limited.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, under help section or write an email to evoting@nsdl.com.

For FABINO LIFE SCIENCES LIMITED
Sd/-
Aditya Mahavir Jain
Managing Director
DIN: 093533

Place: Sonapat
Date: 04th March, 2024

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: ONE BKC, A - Wing, 13th Floor, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051; Tel: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.icicipruamc.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund (the Scheme)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW option) of the Scheme, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e. on March 7, 2024*:

Name of the Schemes/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) ^{5#}	NAV as on March 1, 2024 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund		
Quarterly IDCW	0.2989	11.1378
Direct Plan - Quarterly IDCW	0.3098	11.3888

§ The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the IDCW option of the Scheme.

Subject to deduction of applicable statutory levy, if any

* or the immediately following Business Day, if that day is a Non - Business Day.

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Scheme, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Sd/-
Authorised Signatory

Place: Mumbai
Date : March 4, 2024
No. 002/03/2024

To know more, call 1800 222 999/1800 201 6666 or visit www.icicipruamc.com

Investors are requested to periodically review and update their KYC details along with their mobile number and email id.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit <https://www.icicipruamc.com> or visit AMFI's website <http://www.amfiindia.com>

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.